

आइए एक बार जल्दी से recap कर लेते हैं कि कब और क्यों हम Passive voice का use करते हैं -

1) Passive voice का use किया जाता है जब हमें यह नहीं पता होता कि कार्य किसने किया जैसे -

Donations were made in PM CARES fund. PM CARES फंड में दान दिया गया।

यहाँ पर हम यह नहीं जानते कि किसने यह दान दिया पर यह पता है की दान दिया गया।

2) Passive voice का use उस समय भी किया जा सकता है जब हम किसने कार्य किया यह भूल गए हो या बताना नहीं चाहते -

The policeman was murdered. (by someone) पुलिसवाले की हत्या कर दी गई।

Rohan ruined the party. रोहन ने पार्टी को बर्बाद कर दिया।

इस वाक्य में यह clearly बताया गया है कि किसने पार्टी को बर्बाद कर दिया। पर अगर आप यह ना बताना चाहे कि किसकी वजह से यह काम हुआ है सिर्फ यह बताना चाहे कि क्या हुआ, तब आप Passive voice का use करेंगे -

The party was ruined. पार्टी बर्बाद हो गई।

3) Passive voice का use उस situation में भी किया जाता है जब हम कार्य में ज्यादा interested हो न की उसमें जिसके द्वारा वह काम किया गया हो जैसे -

The roads were sanitized yesterday. (by BMC) कल सड़कों को साफ कर दिया गया था।

यहाँ पर सड़क साफ करने का कार्य important न की वह किसके द्वारा किया गया। इसलिए Passive voice में sentence बोला गया है।

Vandana wrote the mail. वंदना ने मेल लिखा

यहाँ इस वाक्य में emphasis subject यानी वंदना पर है जिसने काम किया। पर अगर हम इस पर जोर देना चाहते हैं कि क्या कार्य किया गया तो हम Passive voice का use करेंगे -

Mail was written. मेल लिखा गया।

4) कभी कभी awkward sentence और inappropriate grammar को avoid करने के लिए भी Passive voice का use किया जाता है जैसे -

When she arrived home, the police arrested her. जब वह घर पहुंची, तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

यह कहने की बजाय अगर यह कहा जाए तो वह बेहतर सुनने में लगेगा -

When she arrived, she was arrested by the police. जब वह पहुंची, तो उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

Transitive Verb

Transitive Verb वह verb है जिससे किसे हरकत का ब्योरा मिलता है. इस श्रेणी में वह क्रिया आते हैं जो एक संज्ञा के द्वारा दूसरे पर किये गये कार्य को दर्शाता है। (A verb that denotes an action occurs, occurred or will occur between the subject and the object in a sentence is called a transitive verb.) दूसरे शब्दों में -

I am eating a fruit. मैं एक फल खा रहा हूँ।

When you will ask, क्या खा रही हो? What are you eating?

आपको answer मिलेगा - Fruit जो की verb का object है

You will get the answer - Fruit. This the object that the transitive verb, खा रही है (to eat) is using.

इस तरह eating एक transitive verb हुआ। कुछ हुए examples देखिये -

He kicked the ball.

She cuts the vegetables.

Intransitive Verb

Intransitive verbs को हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। Intransitive verbs वो verbs होते हैं जिनके subjects तो होता है पर object नहीं। दूसरे शब्दों में Intransitive Verb वह verb है जिससे संज्ञा की अवस्था या अस्तित्व की जानकारी मिलती है। (A verb that denotes a state of the noun it describes in the sentence is called an intransitive verb.)

Preeti is laughing. प्रीति हँस रही है।
कौन हँस रही है? – Who is laughing?
Answer: Preeti

Arun चल रहा है। – Arun is walking.
कौन चल रहा है? – Who is walking
Answer: – Arun

Active voice से Passive Voice बनाते समय ध्यान रखें कि Passive voice हमेशा Transitive Verb का ही बनता है।

हमने अपनी पिछली class में Passive voice बनाते समय किस तरह Pronoun और tenses को change किया जाए, यह सीखा था। आज उसी को continue करते हुए पहले हम सीखेंगे कि कैसे Wh- words से start होने वाले वाक्यों को Passive voice में बदलें।

Questions बनाने के दो तरीके होते हैं -

Helping verb से शुरू होने वाले questions (इनके बारे में हम पिछले lesson में पढ़ चुके हैं)

Question words (Wh -) से शुरू होना वाले questions

Who, Whom, What, Which, When, Why, Where आदि question words हैं। आज हम इन्हीं का Passive voice बनाना सीखेंगे।

पर हम इसका Spoken English को improve करने में कैसे use करेंगे? सभी के मन में यह सवाल होगा। बहुत ही आसान है - मैंने पहले भी बताया है कि कभी कभी Active voice में sentences इतने effective नहीं sound करते जितने Passive voice में। एक example से समझते हैं -

Whom have the selectors selected? चयनकर्ताओं ने किसे चुना है? - (Active Voice)

Sentence बिलकुल सही है पर अगर हम इसे Passive voice में बोले, तो वह ज्यादा clarity देगा -

Who has been selected by the selectors? चयनकर्ताओं द्वारा किसे चुना गया है? (Passive Voice)

और एक example देखें -

When will he lodge an FIR? वह कब FIR दर्ज करेगा?

यहाँ पर important क्या है? FIR दर्ज करवाना। तो हम उस पर force देते हुए इस वाक्य को passive voice में कहेंगे -

When an FIR will be lodged by him? कब FIR दर्ज की जायेगी (उसके द्वारा?)

यहाँ कार्य कौन कर रहा है यह important नहीं है। FIR कोई भी दर्ज करा सकता है इसलिए अगर by him नहीं भी लगाते हैं तो वाक्य बिल्कुल सही होगा।

इस तरह बोलने पर या इस तरह questions पूछने पर सामने वाले को इस बात की clarity मिलेगी कि आप क्या पूछना चाहते हैं और आपके लिए क्या जानना जरूरी है।

Passive voice of Wh - family words

Rules of changing Passive Voice of W-family sentence

- 1) सबसे पहले W-family वाले शब्द और पूरे वाक्य को अलग कर लीजिए
- 2) अब जो बचा हुआ sentence है, वह एक simple sentence है। उसे वाक्य को Tense के अनुसार बदलेंगे जो हमने अपनी last class में सीखा था।
- 3) जब उस बचे हुए वाक्य का passive voice बन जाए तो उससे पहले Active voice में प्रयुक्त Wh word को as it is लगा दीजिये।
- 4) सारे W-family के शब्दों में कोई changes नहीं होता सिर्फ दो शब्दों को छोड़ कर
 - (a) "WHO" को "BY WHOM" में बदला जाएगा
 - (b) "WHOM" को "WHO" में बदला जाएगा

पहले हम एक example को step by step करेंगे -

What are you writing? आप क्या लिख रहे हैं?

Step 1) Wh word को बाकी वाक्य से अलग कर दीजिए -

What

are you writing?

Step 2) बचे हुए वाक्य को tense के सामान्य नियम के अनुसार Passive Voice में बदल दीजिये -

are you writing? - Present Continuous Tense का वाक्य है। अगर आप याद करें इसे हम is/ am/ are + being + 3rd form of verb में बदलते हैं

Convert Object to Subject + Is/Are/Am + Being + Verb (3rd form) + By + Convert Subject to Object + Remaining + (.)

तो वाक्य होगा

_____ is being written by you.

Step 3) अब blank space में Wh word, जो step 1 में छोड़ दिया था, उसे लगाए -

What is being written by you? आपके द्वारा क्या लिखा जा रहा है?

और examples देखिए और आप भी practice कीजिए -

What did he tell? उसने क्या बताया?

What + did he tell? (Past Indefinite Tense)

[Convert Object to Subject + Was/Were + Verb (3rd form) + By + Convert Subject to Object + Remaining + (.)]

_____ was told by him.

What was told by him? उसके द्वारा क्या कहा गया था?

Which book do you want? आपको कौन सी किताब चाहिए?
Which book is wanted by you? कौन सी किताब आपको चाहिए?

Which car do you drive? तुम कौन सी कार चलाते हो?
Which car is driven by you? कौन सी कार तुम से चलाई जाती है?

Which film did you like most? कौन सी फिल्म तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आई ?
Which film was liked most by you? कौन सी फिल्म तुम्हारे द्वारा सबसे ज्यादा पसंद कि गई?

When will you repay your debts? तुम कब अपना उधार चुकता करोगे ?
When your debts will be repaid by you? कब तुम्हारा उधार तुम्हारे द्वारा चुकता किया जायेगा ?

Why did you disobey your parents? क्यों तुमने अपने माता-पिता की आज्ञा नहीं मानी ?
Why your parents were disobeyed by you? क्यों तुम्हारे माता-पिता की आज्ञा तुम्हारे द्वारा नहीं मानी गई ?

Questions beginning with 'who'

Who wrote this letter? यह पत्र किसने लिखा है?
By whom was this letter written? यह पत्र किसके द्वारा लिखा गया था?

Who will call him? उसे कौन बुलाएगा?
By whom will he be called? किसके द्वारा उसे बुलाया जाएगा?

Who painted this beautiful painting? इस खूबसूरत पेंटिंग को किसने पेंट किया?
By whom was this beautiful painting painted? यह खूबसूरत पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी?

Who invited you? आप को किसने बुलाया है?
By whom were you invited? किसके द्वारा आमंत्रित हैं?

Who can break Sachin's record? सचिन का रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है?
By whom can Sachin's record be broken? सचिन का रिकॉर्ड किसके द्वारा तोड़ा जा सकता है?

Questions beginning with 'whom'

Whom has the principal honored? प्रिंसिपल ने किसे सम्मानित किया है?
Who has been honored by the principal? प्रिंसिपल द्वारा किसे सम्मानित किया गया है?

Whom has the police arrested? पुलिस ने किसे गिरफ्तार किया है?
Who has been arrested by police? पुलिस के द्वारा किसे गिरफ्तार किया गया है?

Whom have the people elected? जनता ने किसे चुना है?
 Who has been elected by the people? जनता द्वारा किसे चुना गया है?

Whom have the selectors selected? चयनकर्ताओं ने किसे चुना है?
 Who has been selected by the selectors? चयनकर्ताओं द्वारा किसे चुना गया है?

Whom has she called? उसने किसको बुलाया है?
 Who has been called by her? उसके द्वारा किसे बुलाया गया है?

Passive Voice of Imperatives

वे वाक्य जिसमें प्रार्थना, आदेश, उपदेश हो या कोई इच्छा व्यक्त की हो, Imperative sentences कहलाते हैं। इस तरह के वाक्यों में subject नहीं होता। वाक्य प्रायः verb से हो शुरू होते हैं। Imperative वाक्य में अलग अलग भाव होते हैं - आदेश (order), प्रार्थना (request), सुझाव (suggestion), सलाह (advice) इत्यादि। इनका Passive Voice बनाने में वाक्य में प्रयुक्त भाव के अनुसार subject के साथ अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

Sentence Containing	Active Voice	Passive Voice
Command	Verb (1st Form) + Object + (.)	Let + Convert Object to Subject + Be + Verb (3rd form)
Order	Verb (1st Form) + Object + (.)	You are ordered to + Verb (1st form)+ Object
Request	Verb (1st Form) + Object + (.)	You are requested to + Verb (1st form)+ Object
Advice	Verb (1st Form) + Object.	You are advised to + Verb (1st form)+ Object
Suggestion	Verb (1st Form) + Object + (.)	Convert Object to Subject + Should + Be + Verb (3rd form)

इन दो sentences को compare कीजिये

Don't do this. यह मत करो।

You are requested not to do this. आपसे अनुरोध है कि ऐसा न करें।

कौन सा वाक्य सुनने में आपको better लगा? Obvious है 2nd sentence. 2nd sentence Passive voice का है। अगर आप इस तरह के वाक्य किसी से बोले तो जिनका मन नहीं है, वो भी आपकी बातों को मानेंगे। और यही तो हमारे इस course का motive. Grammar को अपनी practical life में use करना, अपनी Spoken English को और अधिक improve करना और साथ ही साथ ये सभी lessons Competitive Exams की दृष्टि से भी important है।

हम एक ही sentence को अलग अलग situation में बोल कर देखते हैं और उनका Passive voice कैसे बनेगा ये भी सीखते हैं -

OPEN THE WINDOW.

इस वाक्य को अलग अलग situation में देखें तो -

अगर boss अपने junior से कहते हैं तो - Let the window be opened. खिड़की खोल दी जाये।

Boss अगर peon से कहते हैं तो - You are ordered to open the window. आपको खिड़की खोलने का आदेश दिया जाता है।

आप अपने colleague से कहते हैं तो - You are requested to open the window. आपसे खिड़की खोलने का अनुरोध किया जाता है।

अगर doctor किसी patient से कहते हैं तो - You are advised to open the window. आपको खिड़की खोलने की सलाह दी जाती है।

अगर कोई Visitor patient को suggest करता है तो - The window should be opened. खिड़की को खुली रखनी चाहिये।

Active: Don't touch it.

Passive: Let it not be touched.

OR

Passive: You are warned not to touch it.

Active: Work hard. (No object)

Passive: You are advised to work hard.

Active: Get out. (No object)

Passive: You are ordered to get out.

Active: Kindly do this work.

Passive: You are requested to do this work.

Active: Get me a glass of water.

Passive: You are ordered to get me a glass of water.

Active: Let us go for a walk.

Passive: It is suggested that we should go out for a walk.

Active: Please show me your tickets.

Passive: You are requested to show me your tickets.

Active: Do yoga daily.

Passive: You are advised to do yoga daily.

Active: Switch off the fan.

Passive: Let the fan be switched off.

OR

You are ordered to switch off the fan.

Active: Respect parents.

Passive: Parents should be respected.

Passive Voice of Modals

जिन वाक्यों में Modal verbs जैसे May, Might, Can, Could, Will, Would, Shall, Should, Must, Ought to इत्यादि हो उनका Passive voice बनाना बहुत ही आसान है। पहले के rules तो same ही रहेंगे बस modal verbs के बाद be का use किया जाएगा। जैसे -

You may tell your problem. तुम अपनी समस्या बता सकते हो ।

Your problem may be told by you. तुम्हारी समस्या तुम्हारे द्वारा बताई जा सकती है ।

I could not make compromise. मैं समझौता नहीं कर सका।

Compromise could not be made by me. समझौता मेरे द्वारा नहीं किया जा सका।

अब आप समझ चुके होंगे कि कब और कहाँ आप बोलते समय Passive voice का use करेंगे। जब मैंने Active Passive Voice का lesson लिया था तब भी मैंने यह बताया था कि normally हम active voice में ही बात करते हैं पर अपनी English improve करने के लिए कभी कभी Passive Voice का भी use कर सकते हैं।